




04 सितम्बर 2023

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

8TH SEPTEMBER

*Literacy*

INTERNATIONAL DAY



 **smc**  
moneywise. be wise.



## प्रमुख खबरें

- आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का कुल तेल आयात भी जून से 5.2% घटकर जुलाई में 4.4 मिलियन बैरल/दिन रह गया। रूसी तेल का आयात 5.7% घटकर 1.85 मिलियन बैरल/दिन हो गया और सऊदी तेल का आयात 26% गिरकर 470,000 बैरल/दिन रह गया।
- अप्रैल-जुलाई 2023 में केंद्र का राजकोषीय घाटा 6.1 लाख करोड़ रूप तक पहुंच गया, जो बजट अनुमान का 34% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78% अधिक है।
- भारत के प्रमुख भविष्य एक्सचेंजों में से एक, एनसीडीईएक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में भाग लेने के लिए हल्दी उत्पादकों को सब्सिडी देने के लिए जल्द ही महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
- 1 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियों का अगस्त में विस्तार जारी रहा, और एसएंडपी ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स तीन महीने

के उच्चतम स्तर 58.6 पर पहुंच गया।

- भारत का चाय उत्पादन जुलाई में 6.25 प्रतिशत बढ़कर 165.01 मिलियन किलोग्राम हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 155.29 मिलियन किलोग्राम था।
- थाईलैंड में पाम तेल उद्योग के साथ सहयोग की संभावना तलाशने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया थाईलैंड का दौरा करेगा।
- भारत में 1 सितंबर तक चावल की बुआई 398.08 लाख हेक्टेयर में हुई, जो एक साल पहले के 383.79 लाख हेक्टेयर से 3.73% अधिक है: सरकार।
- पूरे भारत में अगस्त में मानसून की कमी 32% रही है जबकि दक्षिण भारत में सामान्य से केवल 38% बारिश हुई है: आईएमडी।
- रूसी मंत्रिमंडल के अनुसार रूसी सरकार ने सूरजमुखी तेल और सूरजमुखीमिल पर निर्यात शुल्क को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	25.08.23	31.08.23	बदलाव (%)
कॉटनऑयलसीडकेक	2698.00	2763.00	2.41%
जौ	1949.50	1978.50	1.49%
कपास	1552.50	1573.50	1.35%
स्टील	46120.00	46620.00	1.08%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	25.08.23	31.08.23	बदलाव (%)
हल्दी	16174.00	15086.00	-6.73%
बाजरा	2061.00	1988.00	-3.54%
ग्वारगम	13181.00	12791.00	-2.96%
ग्वारसीड	6360.00	6173.00	-2.94%
धनिया	7262.00	7072.00	-2.62%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	25.08.23	31.08.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	220.20	262.50	19.21%
कच्चा तेल	6489.00	6828.00	5.22%
एल्युमीनियम	198.10	201.60	1.77%
सोना	58998.00	59821.00	1.39%
सोना एम	58659.00	59368.00	1.21%

## साप्ताहिक समीक्षा

कमोडिटी बाजारों में तेजी का रुझान देखा गया क्योंकि नई मांग के कारण कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गईं और सीआरबी सूचकांक 316 अंक से ऊपर बढ़ गया। डॉलर इंडेक्स और यील्ड में गिरावट के कारण सर्राफा की कीमतों में तेजी देखी गई। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी को कमजोर डॉलर से मदद मिली क्योंकि उम्मीद से अधिक कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने इस अनुमान को बढ़ावा दिया कि फेडरल रिजर्व के पास दरें बढ़ाने के लिए सीमित गुंजाइश होगी। सोना और चांदी की कीमतें क्रमशः 59300 और 74000 के ऊपर बढ़ गईं। ऊर्जा वस्तुओं में भी रुचि में पुनरुत्थान देखा गया। सऊदी अरब के नेतृत्व में तेल उत्पादक देशों के ओपेक+ समूह द्वारा कटौती 2023 के अंत तक जारी रहने की उम्मीद के कारण अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे महीने वृद्धि हुई है। रूसी उपप्रधान मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने गुरुवार को कहा कि मास्को ने आपूर्ति में अधिक कटौती करने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों के संगठन (ओपेक+) के साथ एक नया समझौता किया है, और अगले सप्ताह उत्पादन में अधिक कटौती की रूपरेखा तैयार करेगा। छह महीने के अमेरिकी कच्चे तेल का वायदा मौजूदा महीने की डिलीवरी वाले कच्चे तेल से 3.83 डॉलर कम पर कारोबार कर रहा है, जो 17 नवंबर के बाद से सबसे अधिक डिस्काउंट है, जो कम आपूर्ति और भंडार में गिरावट को प्रोत्साहित करने का संकेत देता है। डॉलर इंडेक्स को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और यह 104.4 के स्तर से गिर गया। तांबे की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते जोरदार तेजी देखी गई। एल्युमीनियम और लेड में जोरदार रिकवरी देखी गई, जबकि जिंक की कीमतों में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी जारी रही। एक आधिकारिक फ्रैक्टी सर्वेक्षण से पता चला कि अगस्त में चीन की मैनुफैक्चरिंग गतिविधि फिर से कम हो गई, जिससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कमजोरी के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। औद्योगिक धातुओं की बढ़त सीमित रही।

कृषि क्षेत्र में, कॉटनऑयलसीडकेक वायदा की कीमतें निचले स्तर से उबरकर 2800 के करीब बढ़ गईं। कैस्टर सीड ने सप्ताह के उत्तरार्ध में साप्ताहिक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। ग्वार काउंटर कमजोर बढ़ गया। मसालों के लिए यह एक मंदी वाला सप्ताह था, जिसमें कीमतें भी गिरावट के साथ बढ़ गईं। एनसीडीईएक्स ने 20 सितंबर तक हल्दी के सभी मौजूदा कॉन्ट्रैक्टों पर इवेंट आधारित अतिरिक्त निगरानी मार्जिन (ई-एसएम) लगाया है, जो हल्दी की कीमतों में बढ़त को सीमित करेगा। मसालों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है। कमजोर निर्यात पूछताछ अभी भी निर्यातकों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि हाल के सप्ताहों में चीन से मांग में गिरावट हुई है, जिससे जीरा की कीमतों पर दबाव पड़ा है। कम उत्पादन के मुद्दे से मंथा की कीमतों में उछाल आया। सामान्य से कम आपूर्ति और मेन्थॉल के लिए ताजा निर्यात पूछताछ के साथ स्टॉकस्टों की बढ़ती खरीदारी से मंथा की कीमतों को समर्थन मिला। घरेलू बाजार में आपूर्ति घटने से कपास की कीमतें बढ़ीं। कम रकबे और आईसीई कपास की कीमतों में मजबूती की रिपोर्ट से भी बाजार के सेंटीमेंट को समर्थन मिला।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	25.08.2023	31.08.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	1,939.40	1,970.50	1.60%
चना	दिल्ली	6,030.55	6,602.90	9.49%
धनिया	कोटा	7,438.30	7,216.40	-2.98%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	811.25	811.65	0.05%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,472.40	1,453.70	-1.27%
ग्वारसीड	जोधपुर	6,280.85	6,183.70	-1.55%
ग्वारगम	जोधपुर	13,159.90	12,766.40	-2.99%
जीरा	ऊझा	57,962.50	56,483.50	-2.55%
सरसों	जयपुर	5,894.50	5,845.75	-0.83%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	940.00	930.00	-1.06%
सोयाबीन	इंदौर	5,045.60	5,146.85	2.01%
हल्दी	निजामाबाद	14,631.80	14,051.30	-3.97%
गेहूं	दिल्ली	2,516.25	2,512.50	-0.15%
कॉटन	कड़ी	28,731.70	28,998.35	0.93%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,702.35	2,723.85	0.80%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	25.08.2023	31.08.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2150.50	2208.00	2.67%
तांबा	LME	नकद	8355.50	8422.50	0.80%
लेड	LME	नकद	2161.00	2218.00	2.64%
निकल	LME	नकद	20795.00	20289.00	-2.43%
जिंक	LME	नकद	2382.50	2430.50	2.01%
सोना	COMEX	अक्टूबर	1921.30	1956.60	1.84%
चांदी	COMEX	सितम्बर	24.23	24.57	1.39%
लाइट क्रूड	NYMEX	सितम्बर	79.83	83.63	4.76%
नेचुरल गैस	NYMEX	सितम्बर	2.54	2.77	8.98%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	18.08.2023	24.08.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	नवम्बर	13.87	13.68	-1.37%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	63.36	62.48	-1.39%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	87.31	87.82	0.58%
सीपीओ	BMD	नवम्बर	3,962.00	4,010.00	1.21%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	24.08.2023 क्वांटिटी	31.08.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	12205	12034	-171
चना	मी.टन	13751	13888	137
धनिया	मी.टन	29533	29861	328
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	16501	17336	835
ग्वारगम	मी.टन	24622	26226	1604
ग्वारसीड	मी.टन	96	87	-9
जीरा	मी.टन	5002	4960	-42
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉन्ग	मी.टन	1854	522	-1332
हल्दी	मी.टन	2207	1680	-527

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	25.08.2023 क्वांटिटी	31.08.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	189	806	618
तांबा	मी.टन	432870	568149	135279
सोना	किग्रा	606	604	-2
सोना मिनी	किग्रा	2672	2672	0
सोना गिनी	किग्रा	145300	651300	506000
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	78596	84249	5653
चांदी एम	किग्रा	41760	41760	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 25.08.2023	स्टॉक की स्थिति 31.08.2023	अंतर
एल्युमीनियम	524025	515750	-8275.00
तांबा	97650	104275	6625.00
निकल	36936	37194	258.00
लेड	54875	55100	225.00
जिंक	149025	153975	4950.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	सितम्बर	54825.00	31.08.23	तेजी	54000.00	53600.00	-	53500.00
NCDEX	हल्दी	अक्टूबर	15086.00	31.08.23	साइडवेज	15200.00	13800.00	16500.00	-
NCDEX	ग्वारसीड	सितम्बर	6173.00	28.06.23	तेजी	5350.00	6000.00	-	5950.00
NCDEX	कैस्टरसीड	सितम्बर	6175.00	15.06.23	तेजी	5750.00	6030.00	-	6000.00
NCDEX	स्टील लांग	सितम्बर	46620.00	16.08.23	तेजी	45200.00	45200.00	-	45000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	सितम्बर	2763.00	02.08.23	तेजी	2400.00	2630.00	-	2600.00
MCX	मेंथा ऑयल	सितम्बर	1029.40	31.08.23	तेजी	1025.00	968.00	-	965.00
MCX	बुलडेक्स	सितम्बर	16028.00	18.08.23	तेजी	15600.00	15730.00	-	15700.00
MCX	चांदी	दिसम्बर	75682.00	18.08.23	तेजी	70200.00	72900.00	-	72800.00
MCX	सोना	अक्टूबर	59374.00	29.08.23	तेजी	58900.00	58250.00	-	58000.00
MCX	तांबा	सितम्बर	735.60	31.08.23	तेजी	736.00	718.00	-	715.00
MCX	लेड	सितम्बर	186.20	13.07.23	साइडवेज	182.00	183.00	193.00	-
MCX	जिंक	सितम्बर	217.45	31.08.23	तेजी	217.00	207.50	-	207.00
MCX	एल्युमिनियम	सितम्बर	201.60	30.08.23	तेजी	200.00	194.00	-	193.00
MCX	कच्चा तेल	सितम्बर	6871.00	12.07.23	तेजी	6050.00	6420.00	-	6400.00
MCX	नेचुरल गैस	सितम्बर	231.60	31.08.23	तेजी	230.00	200.50	-	200.00

\*31/08/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक कमीक हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### नेचुरल गैस (सितम्बर) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस (सितम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 257.10

निचला स्तर: 210.60

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (सितम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 31 अगस्त 2023 को 231.60 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 219.68 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 55.778 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

216.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 224.00 ₹ के टारगेट के लिए 240.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कैस्टर सीड (सितम्बर) एनसीडीईएक्स



### कैस्टर सीड (सितम्बर) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6631.00

निचला स्तर: 5987.00

एनसीडीईएक्स में कैस्टर सीड (सितम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 31 अगस्त 2023 को 6175.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6223.70 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 50.52 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

6040.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6450.00 ₹ के टारगेट के लिए 6180.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### तांबा (सितम्बर) एमसीएक्स



### तांबा (सितम्बर) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 757.35

निचला स्तर: 717.30

एमसीएक्स में तांबा (सितम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 31 अगस्त 2023 को 735.60 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 731.08 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 66.269 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

730.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 750.00 ₹ के टारगेट के लिए 737.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

सितंबर के महीने में मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में मानसून की बारिश फिर से शुरू होने के पूर्वानुमान के मद्देनजर हल्दी की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत में बारिश की गतिविधि सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है जिससे मौसम की चिंताओं के कम होने की संभावना है। सुस्त निर्यात मांग एक अन्य कारक हो सकती है जो निकट अवधि में कीमतों पर दबाव बनाए रखेगी। कीमतों में तेज वृद्धि के साथ निर्यात मांग धीमी हो गई है क्योंकि भारत ने जून-23 में पिछले वर्ष के 18.5 हजार टन की तुलना में केवल 18.3 हजार टन का निर्यात किया। एनसीडीईएक्स ने 20 सितंबर तक हल्दी के सभी मौजूदा पर इवेंट आधारित अतिरिक्त निगरानी मार्जिन (ई-एसएम) लगाया है, जो हल्दी की कीमतों में बढ़त को सीमित करेगा। मसालों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है। लेकिन बाजार में गुणवत्तापूर्ण फसल की सीमित उपलब्धता के कारण नुकसान सीमित होने की संभावना है। हल्दी वायदा (अक्टूबर) की कीमतों के 13000-17400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मौजूदा स्तर पर त्योहारी मांग बढ़ने से जीरा वायदा की कीमतों में बढ़ोतरी होने की है। मिल मालिकों के पास सूखे स्टॉक और गुणवत्तापूर्ण उपज की सीमित आपूर्ति से निकट भविष्य में कीमतों के स्थिर रहने की संभावना है। लेकिन, वैश्विक आपूर्ति में सुधार के कारण निर्यात अभी भी कम है। भारतीय जीरे की कीमतें अभी भी अधिक हैं जिससे निर्यात धीमा है। चीन द्वारा कम खरीदारी के कारण जून-23 में जीरा का निर्यात कम हो गया क्योंकि भारत ने पिछले वर्ष के 20.4 हजार टन की तुलना में केवल 9.2 हजार टन जीरा निर्यात किया। कमजोर फसल के कारण पाइपलाइन समाप्त हैं और जब तक नई फसल बाजार में नहीं आती, स्टॉक कम रहने की संभावना है। जीरा वायदा (सितंबर) की कीमतों के 51000-61000 के दायरे में रहने की संभावना है।

घरेलू मांग में कमी के कारण धनिया वायदा (सितंबर) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के कारण धनिया में कमजोरी बनी रहेगी। लेकिन निर्यात मांग बढ़ने से गिरावट सीमित होने की संभावना है। धनिया की निर्यात मांग अच्छी रही है जिससे कीमतों में गिरावट पर अंकुश लगेगा। भारत ने जून-23 में पिछले वर्ष के 2.4 हजार टन की तुलना में लगभग 11.3 हजार टन धनिया का निर्यात किया। भारत ने अप्रैल-जून-23 की समयावधि के दौरान पिछले वर्ष के 8.7 हजार टन के मुकाबले लगभग 46.7 हजार टन का निर्यात किया। चीन, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में भारतीय धनिये के प्रमुख खरीदार रहे हैं। फसल के बड़े आकार के कारण अप्रैल-23 से अब तक धनिया की कुल आवक अधिक रही है, लेकिन अधिक निर्यात से नुकसान सीमित होने की संभावना है। धनिया की कीमतों के 6900-7700 के दायरे में रहने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

फसल की स्थिति में सुधार की उम्मीद में कपास की कीमतों में गिरावट की संभावना है क्योंकि आईएमडी ने सितंबर के दौरान मध्य भारत में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है। कमजोर निर्यात मांग और औद्योगिक खरीद में कमी से कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन आगामी सीजन की कमजोर उत्पादन संभावनाओं के मद्देनजर गिरावट सीमित होने की संभावना है। वर्ष 2023 में 25 अगस्त तक पूरे भारत में कपास का क्षेत्रफल 122.58 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले वर्ष यह 124.82 लाख हेक्टेयर था। एमसीएक्स पर कॉटन (सितंबर) की कीमतों के 58000-62500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1530-1640 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

घरेलू बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (सितंबर) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है। लेकिन कपास के रकबे में गिरावट की रिपोर्ट से कीमतों की गिरावट पर लगाव लगेगी। कॉटनसीडऑयलकेक की मौसमी कीमत सितंबर में कीमतों में गिरावट का संकेत देती है। कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतों के 2700-2950 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

राजस्थान में कम उत्पादन को लेकर मौजूदा चिंताओं के कारण ग्वारसीड (सितंबर) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। राजस्थान में बुआई क्षेत्र में गिरावट हुई है। वर्ष 2023 में राजस्थान में बुआई क्षेत्र वर्ष-दर-वर्ष 10% घटकर 27.34 लाख हेक्टेयर रह गया। राजस्थान में शुष्क मौसम ने उपज में कमी की चिंता बढ़ा दी है जिससे कीमतों में मजबूती आएगी। निकट भविष्य में ग्वारसीड की कीमतें 5900-6750 के दायरे में कारोबार कर सकती है जबकि ग्वारगम की कीमतों के 11900-14500 के दायरे में रहने की संभावना है।

बाजार में शॉर्ट कवरींग के कारण मंथा ऑयल (सितंबर) वायदा की कीमतों में तेज रिकवरी देखी गई। मेन्थॉल के लिए उभरती नयी निर्यात पूछताछ के कारण स्टॉकस्ट खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। कम रकबा के कारण वार्षिक आधार पर मंथा ऑयल का कुल उत्पादन कम होने की संभावना है, जिससे कीमतों में गिरावट पर अंकुश लगेगा। मंथा ऑयल की कीमतों के 990-1080 के दायरे में रहने की संभावना है।

गुजरात में अरंडी के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। बुआई गतिविधियां बेहतर गति से चल रही हैं क्योंकि 25 अगस्त तक पूरे भारत में लगभग 7.67 लाख हेक्टेयर में अरंडी की बुआई की गई थी, जबकि पिछले वर्ष 6.51 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। इसके अलावा, अरंडी तेल की कमजोर मांग से भी निकट अवधि में कीमतों पर दबाव रह सकता है। अरंडी (सितंबर) वायदा की कीमतों के 5900-6600 के दायरे में रहने की संभावना है।

### सर्पाफा

इस वर्ष अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कम संभावनाओं से लाभ उठाते हुए सोने की कीमतों में लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। पिछले सप्ताह में महत्वपूर्ण आंकड़ों के बाद यह बदलाव आया, जिसकी परिणति बहुप्रतीक्षित नौकरियों की रिपोर्ट के रूप में हुई। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और पूरे सप्ताह डॉलर के कमजोर होने से अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोने की मांग बढ़ गई। जुलाई में, अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में छह महीनों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। लेकिन मासिक मुद्रास्फीति दरों में गिरावट ने इस उम्मीद को मजबूत किया कि फेडरल रिजर्व अगले महीने अपनी मौजूदा ब्याज दरों को बनाए रखेगा। अटलांटा फेड के अध्यक्ष राफेल बॉस्टिक ने अमेरिकी ब्याज दर में किसी भी बढ़ोतरी के खिलाफ तर्क दिया, और कहा कि मौद्रिक नीति पहले से ही मुद्रास्फीति को उचित समय सीमा में लक्षित 2% स्तर तक लाने के लिए पर्याप्त रूप से सख्त है। इसके अलावा, जापान की फेक्टरी गतिविधि में अगस्त में लगातार तीसरे महीने गिरावट हुई। सीएफटीसी में सोने की गैर-वाणिज्यिक शुद्ध पोजिशन 101,000 थी, जो 121,000 के पहले के आंकड़ों की तुलना में कमी दर्शाती है। गैर-वाणिज्यिक शुद्ध पोजिशन में इस गिरावट से पता चलता है कि सोने के बाजार में स्ट्रैटिजीजों के बीच तेजी की भावना में कमी आई है। इस सप्ताह में ऐसा प्रतीत होता है कि सोने की कीमतों में सुधार हो सकता है। सोने की कीमतों को 58,900 का स्तर पर सपोर्ट रहने की उम्मीद है, जबकि 60,000 का स्तर एक रेंजस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। दूसरी ओर, चांदी की कीमतों को 78,000 के आसपास रेंजस्टेंस का सामना करने का अनुमान है, साथ ही 73,800 के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतों में 6% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि अमेरिकी वाणिज्यिक कच्चे तेल के भंडार में उल्लेखनीय कमी के कारण हुई, जिसमें जुलाई के मध्य से 34 मिलियन बैरल की भारी गिरावट हुई है। इस गिरावट ने इस सेंटीमेंट को बढ़ाने में योगदान दिया कि तेल बाजार सख्त हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हाजिर कीमतों और कैलेंडर स्प्रेड में सुधार हुआ है। ईआईए के अनुसार पिछले छह हफ्तों में से पांच में वाणिज्यिक कच्चे तेल का भंडार कम हुआ है। इसके साथ ही, जून में कच्चे तेल के अमेरिकी क्षेत्र के उत्पादन में 1.6% की वृद्धि देखी गई, जो 12.844 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गई, जो फरवरी 2020 के बाद से उच्चतम स्तर है, महामारी की शुरुआत से पहले जिसने ईंधन की मांग और अन्य तेल उत्पादों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। नेचुरल गैस के संबंध में, ईआईए के मासिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के निचले 48 राज्यों में सकल उत्पादन में मामूली गिरावट देखी गई, जो जून में 0.1 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन कम होकर 114.9 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन हो गई, जो मई में रिकॉर्ड 115.0 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन थी। इन उतार-चढ़ावों ने व्यापारियों और रिफाइनरों के लिए आसानी से उपलब्ध तेल की मात्रा में परिवर्तन करके हाजिर कीमतों और कैलेंडर स्प्रेड दोनों को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और उसके बाद के अमेरिकी और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से उत्पन्न संभावित तेल की कमी और बढ़ती कीमतों के दबाव का मुकाबला करने के लिए उपायों का निर्देश दिया। जबकि इन चिंताओं को दूर करने के लिए रणनीतिक तेल जारी किए गए, वे जून के अंत तक समाप्त हो गए। इसके बाद, ऊर्जा विभाग अपेक्षाकृत कम कीमतों की अवधि के दौरान ऐसा करने की अपनी योजना के अनुरूप धीरे-धीरे लगभग 3 मिलियन बैरल के साथ एस्पिआर की भरपाई कर रहा है। आने वाले सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है, जहां कीमतें 6650-7100 रु के दायरे में कारोबार कर सकती है। 6650-7100 होगी। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है और कीमतें 200-240 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं, क्योंकि चीन ने अपनी करेंसी युआन और संपत्ति बाजार, जिसमें धातुओं की सबसे अधिक मांग होती है, को समर्थन देने के लिए अधिक उपाय किए हैं। अगस्त में आपूर्ति, घरेलू मांग और रोजगार में सुधार के साथ चीन की फैक्ट्री गतिविधि आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, जिससे पता चलता है कि विकास को पुनर्जीवित करने के आधिकारिक प्रयासों का कुछ प्रभाव हो सकता है। बीजिंग ने अपने संकटग्रस्त संपत्ति बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपाय जारी किए हैं, जिनमें पहली बार घर खरीदने वालों के लिए मौजूदा बंधक दर को कम करना और कुछ शहरों में डाउन पेमेंट अनुपात शामिल है। लेकिन एक आधिकारिक सर्वेक्षण से पता चला है कि चीन की मैनुफैक्चरिंग गतिविधि अगस्त में लगातार पांचवें महीने कम हुई है, जिससे कमजोर व्यापक आर्थिक आंकड़ों का सिलसिला बढ़ गया है, जिसका असर धातुओं की कीमतों पर पड़ा है। तांबे की कीमतें 725-760 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एएनजेड विश्लेषकों ने एक नोट में कहा कि वैश्विक स्तर पर तांबे की मांग को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था से सहायता मिलेगी, और उम्मीद है कि 2025 में भारत की मांग 1.5 मिलियन टन से अधिक हो जाएगी, जो 2022 के स्तर से 40% अधिक है। जिंक की कीमतें 210-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लेड की कीमतें 183-193 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 196-210 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। जुलाई में चीन का एल्युमीनियम आयात एक साल पहले की तुलना में 20.1% बढ़कर 231,452 टन हो गया। मारुबेनी कॉर्पोरेशन ने कहा कि तीन प्रमुख जापानी बंदरगाहों पर एल्युमीनियम का स्टॉक जुलाई के अंत तक 1.9% गिरकर 350,600 मीट्रिक टन हो गया, जो पिछले महीने में 357,490 मीट्रिक टन था। स्टील लॉन्ग बायदा (सितंबर) की कीमतों के 45900-47500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय मांग में सुस्ती और चीनी स्टील उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत का स्टील निर्यात 33% कम हो गया है।

## बुलियन स्पॉट एक्सचेंज... 'निवेशकों के लिए एक सुनहरा उपहार'

भारत वैश्विक स्तर पर चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसकी वार्षिक स्तर पर सोने की मांग लगभग 800-900 टन है, और वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बावजूद वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतें तय करने में भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत के अपने स्वयं के अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की आकांक्षा को बढ़ावा देते हुए और वैश्विक सराफा बाजार में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जुलाई 2022 को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IBX) का शुभारंभ किया गया। इस एक्सचेंज को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा विनियमित किया जाता है।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है कि 29 जुलाई, 2022 को शुभारंभ के बाद 31 अगस्त, 2023 तक, कुल व्यापार मात्रा 984 किलोग्राम (58.55 मिलियन डॉलर मूल्य) बताई गई है।

### कारोबार के लिए उपलब्ध उत्पाद

1. इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर 995 शुद्धता वाला 1 किलोग्राम और 999 शुद्धता वाला सोना मिनी का टी+0 सेटलमेंट (100% अग्रिम मार्जिन) के साथ ट्रेड के लिए उपलब्ध है। अग्रिम मार्जिन बाजार में अटकलों को समाप्त करने और जोखिमों को कम करने के लिए है।
2. यूईई के लिए एक अलग खंड, 995 और 999 शुद्धता यूईईजीडी सोना टी+0 सेटलमेंट (100% अग्रिम मार्जिन) के साथ आईआईबीएक्स पर व्यापार के लिए उपलब्ध है। इन सोने की बार्स को यूईई गुड डिलिवरी (यूईईजीडी) द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं या आईआईबीएक्स द्वारा अनुमोदित अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई सोने की बार्स को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए।
3. बाद में, उत्पादों को टी+2 (मार्जिन भुगतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट) के लिए किया जाएगा, जहां ऑर्डर के निष्पादन के दो व्यावसायिक दिनों के बाद फंड का निपटारा होता है।
4. चांदी के उत्पादों को भी बाद के चरणों में उपलब्ध कराया जाएगा।

### एक्सचेंज पर पंजीकृत ज्वैलर्स और वॉल्ट

- जूलरों में 25 करोड़ की कुल संपत्ति वाले और 95% राजस्व वाले जूलर और 5 लाख डॉलर की कुल संपत्ति वाले एनआरआई एक्सचेंज में कारोबार कर सकते हैं, बशर्ते, वे डिलिवरी लेना चाहते हैं।
- वर्तमान में, सोना आयात करने और एक्सचेंज पर कारोबार करने के लिए 56 जूलर पंजीकृत हैं। इसमें मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, आरबीजेड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जावेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सांधी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य शामिल हैं।
- योग्य जूलरों के अलावा, अनिवासी भारतीय और संस्थान भी आईआईबीएक्स के साथ पंजीकरण के बाद एक्सचेंज में भाग लेने में सक्षम हैं।
- मध्यम अवधि में, सोने के ईटीएफ जैसी संस्थाओं के भी भाग लेने की उम्मीद है।
- एक्सचेंज में दो वॉल्ट ऑपरेटर हैं—सीक्वल ग्लोबल और ब्रिक्स इंडिया—और नियामक एक अन्य वॉल्ट ऑपरेटर को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। नियामक गिफ्ट-आईएफएससी में बुलियन रिफाइनरी की स्थापना को भी मंजूरी देगा। गिफ्ट सिटी में लगभग 125 टन सोने और 1,000 टन चांदी के भंडारण क्षमता की योजना है।

### बुलियन स्पॉट एक्सचेंज के लाभ

- इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ऐसी लागत पर उत्पादों और प्रौद्योगिकी सेवाओं का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है जो भारतीय एक्सचेंजों के साथ-साथ हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क में अन्य वैश्विक एक्सचेंजों की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है।
- यह एक्सचेंज 1990 के दशक में नामांकित बैंकों और एजेंसियों के माध्यम से सोने के आयात के उदारीकरण के बाद से, भारत में पहली बार सोने के आयात के उद्देश्य से आईआईबीएक्स पर योग्य जूलरों की प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति देता है।
- एक्सचेंज मूल्य की प्राप्ति के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करता है, और सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ केंद्रीकृत समाशोधन की गारंटी देता है।
- एक्सचेंज की परिकल्पना भारत में बुलियन आयात करने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करने और बुलियन ट्रेडिंग, बुलियन वित्तीय उत्पादों में निवेश और आईएफएससी में वॉल्टिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय बुलियन एक्सचेंज परिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए की गई है।
- बुलियन को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अधिकृत और इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा सूचीबद्ध तिजोरियों में रखा जाता है। एक्सचेंज पर बुलियन का कारोबार बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के रूप में किया जाता है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्क्रोरीटिज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।